

कृपया COVID-19



से स्वयं की और सभी की सुरक्षा करें

मास्क या चेहरा ढंकने के लिए कुछ पहनें।



यदि बीमार हैं तो घर में ही रहें. COVID-19 के लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं.



खांसी होने पर उसे ढकें. चेहरे और मुंह को छूने से बचें.




अपने हाथ बार-बार धोएं. सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें.



यात्रा को अत्यावश्यक फेरों तक ही सीमित करें.

सार्वजनिकपरिवहनपर यात्रा करतेरहतेहुए, अपने औरदूसरोंकेबीचजितनासंभवहोसके उतनी दूरी बनाए रखें.

प्रतीक्षाकरतेसमय दूसरों सेअलगखड़े हों.



अधिक जानकारी के लिए kingcounty.gov/covid/hindi

Public Health
Seattle & King County

King County
METRO

Moving forward together

Social media - Hindi

Please share with your communities

Cell	English	Translation
1	Public Health and King County Metro want you to stay safe while riding transit.	Public Health और King County Metro चाहते हैं कि ट्रांज़िट द्वारा सवारी करते समय आप सुरक्षित रहें।
2	Follow these safety tips to protect yourself and others from COVID-19.	COVID-19 से अपने आप को तथा दूसरों को बचाए रखने के लिए इन सुरक्षा उपायों का अनुसरण करें।
3	Learn more about Metro's reduced service at www.kingcounty.gov/metro/reducedschedule/hi .	Metro की कटौती की गई सेवाओं के बारे में और जानने के लिए www.kingcounty.gov/metro/reducedschedule/hi पर जाएं।

कृपया COVID-19 से स्वयं की और सभी की सुरक्षा करें




मास्क या चेहरा ढकने के लिए कुछ पहनें।



यदि बीमार हैं तो घर में ही रहें। COVID-19 के लक्षणों में बुखार, खासी और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं।



खांसी होने पर उसे ढकें, चेहरे और मुंह को छूने से बचें।



अपने हाथ बार-बार धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें।




यात्रा को अत्यावश्यक फेरों तक ही सीमित करें।

सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा करते रहते हुए, अपने और दूसरों के बीच जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनाए रखें।



प्रतीक्षा करते समय दूसरों से अलग खड़े हों।



अधिक जानकारी के लिए kingcounty.gov/covid/hindi

Public Health
Seattle & King County

King County
METRO

Moving forward together